



सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का कर्मचारी वैक्सीनेशन डायरेक्टिव 4 अक्टूबर से लागू होगा

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (23 सितम्बर, 2021) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, सभी कर्मचारियों और जनता के लिए स्वस्थ और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए, रीओपनिंग एक्ट (Reopening Act), ओकुपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट (ओ.एच.एस.ए.) (Occupational Health and Safety Act) (OHS) के अंतर्गत, सिटी की कानूनी जिम्मेदारी है।

लेबर साझेदारों, पब्लिक हेल्थ के साथ जारी काम और मशविरे के बाद और प्रोविंसियल रेगुलेशन्स के मुताबिक, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन कोविड-19 वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टिव (COVID-19 Vaccination Administrative Directive) लागू कर रही है, जो सोमवार, 4 अक्टूबर को लागू होगा।

इस डायरेक्टिव के अंतर्गत, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के सभी कर्मचारियों, कॉन्ट्रैक्टर्स, सलाहकारों, विद्यार्थियों और वालंटियर्स के लिए, शुक्रवार, 15 अक्टूबर, 2021 तक कोविड-19 वैक्सीनेशन स्थिति का प्रमाण साझा करना जरूरी होगा। छूटों वाले व्यक्तियों को ओनटैरियो ह्यूमन राइट्स कोड (Ontario Human Rights Code) के अंतर्गत रखा जाएगा।

बिना वैक्सीन लगवाए जो कर्मचारी डायरेक्टिव लागू होने के बाद वैक्सीन लगवाने का फैसला करते हैं, उनके लिए रविवार, 14 नवंबर, 2021 तक अपनी वैक्सीनेशन स्थिति बतानी जरूरी होगी।

सोमवार, 15 नवंबर, 2021 से, जो कर्मचारी वैक्सीनेशन का प्रमाण प्रदान नहीं करते और जिन्हें किसी कारण कोविड-19 वैक्सीनेशन से छूट की मंजूरी नहीं मिली है, उनके लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में आवश्यक जानकारी पूरी करनी जरूरी होगी। इसके अलावा, वे सभी कर्मचारी, जो वैक्सीनेशन का प्रमाण प्राप्त नहीं करते, उनके लिए नियमित कोविड-19 टेस्टिंग करवानी जरूरी होगी। कर्मचारियों के लिए, कार्यस्थल में जाने के लिए नेगेटिव कोविड-19 परिणाम दिखाना जरूरी होगा।

पील रीजन (Peel Region) में सबसे बड़े इम्प्लायर्स में से एक के तौर पर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में 6,000 कर्मचारी नियुक्त हैं। यह ऐसे स्वस्थ और सुरक्षित कार्यस्थल के लिए प्रतिबद्ध है, जो स्टाफ और उस कम्युनिटी को प्राथमिकता देता हो, जिसे यह सेवा प्रदान करती है। कोविड-19 से और सुरक्षा प्रदान करने में मदद के लिए, एक्टिव स्क्रीनिंग, शारीरिक दूरी और निजी सुरक्षात्मक उपकरण सहित, स्वास्थ्य संबंधी बढ़े हुए उपाय लागू रहेंगे।



Service and Information Update

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca